



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 927) पटना, मंगलवार, 17 सितम्बर 2024

सं0 2/सी01-20-01/2023 गृ0आ0—9249

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

13 अगस्त 2024

श्री अविनाश प्रसाद सिंह, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक (व0क्र0-1024) भोजपुर जिला बल, सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (उच्चतर कार्यकारी प्रभार) को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) की कोटि में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद के प्रभार प्रदान करने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-2343, दिनांक-27.11.2023 एवं पत्रांक-71, दिनांक-16.01.2024 द्वारा केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी गयी। उक्त अनुशंसा में श्री अविनाश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक (व0क्र0-1024) को उच्चतर कार्यकारी प्रभार दिये जाने हेतु अनुशंसा "अनुशंसित" विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

2. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा दिनांक-24.01.2024 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गई। विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री अविनाश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक (व0क्र0-1024) को उच्चतर कार्यकारी प्रभार दिये जाने हेतु अनुशंसा "अनुशंसित" किया गया।

3. विभागीय स्क्रीनिंग समिति की उक्त अनुशंसा के आधार पर श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या-1308, दिनांक-30.01.2024 द्वारा पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक मूल कोटि में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद प्रभार प्रदान किया गया।

4. पुनः पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-157, दिनांक-31.01.2024 एवं पत्रांक-874, दिनांक-30.05.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री अविनाश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक (व0क्र0-1024) भोजपुर जिला बल के विरुद्ध श्री सुशील कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सहरसा के पत्र संख्या-480, दिनांक-04.10.2023 द्वारा कोर्ट

परिवाद संख्या-236/1999, Trial No:- 1192/2008 में स्थायी वारंट निर्गत करते हुये फरार उद्घोषित किया गया है। साथ ही, पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री सिंह के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

5. उक्त के आलोक में श्री अविनाश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक (व0क्र0-1024) भोजपुर जिला बल को विभागीय अधिसूचना संख्या-1308, दिनांक-30.01.2024 द्वारा पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद के प्रभार प्रदान करने की तिथि-30.01.2024 के प्रभाव से पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रत्यावर्तित करते हुये उनकी सेवा पुलिस मुख्यालय को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री अविनाश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक (व0क्र0-1024) भोजपुर जिला बल को विभागीय अधिसूचना संख्या-1308, दिनांक-30.01.2024 द्वारा पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद के प्रभार प्रदान करने की तिथि-30.01.2024 के प्रभाव से पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रत्यावर्तित करते हुये उनकी सेवा पुलिस मुख्यालय को वापस की जाती है।

7. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
विनोद कुमार दास,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 927-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>